



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड (i)

PART II—Section 3 Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 1978/पौष 23, 1899

No. 25] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 1978/PAUSA 23, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह छलन संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1978

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां०कां०वि० 30(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 157/77-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 18 जून, 1977 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 33क की उपमद (1) में आने वाले और उससे उपाधत्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के ब्राडकास्ट टेलीविजन रिसेवरों को उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क की दर
1	2	3
1.	सेट जिनका स्क्रीन आकार छत्तीस सेंटीमीटर से अधिक न हो और जिसका मुख्य प्रति सेट एक हजार बार सी रूप्यों से अधिक न हो।	मूल्य का पांच प्रतिशत

1	2	3
2.	सेट जिनका स्क्रीन आकार छत्तीस सेन्टीमीटर से अधिक हों और जिनका मूल्य एक हजार छह सौ रुपयों से अधिक न हो।	मूल्य का पाँच प्रतिशत

2. इस अधिसूचना में अंतर्बिष्ट कोई बात किसी ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जिसको विक्रय के पश्चात् रख-रखाव करने के करार के परिणामस्वरूप ऐसे करार के अधीन पहले एक वर्ष के दौरान सेट के मूल्य सहित संवेद्य रकम उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यथास्थिति, एक हजार बार सौ रुपए या एक हजार छह सौ रुपए से अधिक हो जाती है।

[सं० 6/78-के०उ०शु०/फा०सं० 6/65/76-के०उ०शु० I]

भुवनेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 13th January, 1978

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

G.S.R. (30 E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 157/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts broadcast television receiver sets falling under sub-item (1) of Item No. 33A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	Sets, of screen size not exceeding thirty-six centimetres and of a value not exceeding one thousand four hundred rupees per set.	Five per cent ad-valorem.
2.	Sets, of screen size exceeding thirty-six centimetres and of a value not exceeding one thousand six hundred rupees per set.	Five per cent ad-valorem.

2. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer if as a result of entering into after-sale service agreement the amount of payment for the first one year under such agreement together with the value of the set exceeds one thousand four hundred rupees or as the case may be, one thousand six hundred rupees specified in column (2) of the said Table.

[No. 6/78-CE/F. No. 6/65/76-CX.I]

B. PROSAD, Under Secy.